



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 297 राँची, मंगलवार, 20 मार्च, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

अधिसूचना

18 मार्च 2018

संख्या:- 03नि0न0-05/2018 रा0नि0आ0 : 439 — राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना संख्या-302 दिनांक 6 मार्च 2018 द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 541(3) एवं धारा 541(4) तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 26 के तहत नगरपालिका आम एवं उप निर्वाचन, 2018 के निमित्त श्री सतीश कुमार, नजारत उप समाहर्ता, पलामू को मेदिनीनगर नगर निगम के वार्ड पार्षद (वार्ड सं०- 10 से 18 तक) पद के लिए निर्वाची पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित किया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) —सह— उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 149 दिनांक 17 मार्च 2018 द्वारा श्री सतीश कुमार, नजारत उप समाहर्ता, पलामू के स्थान पर श्री उज्जवल कुमार सोरेन, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पण्डवा को मेदिनीनगर नगर निगम के वार्ड पार्षद (वार्ड सं०- 10 से 18 तक) पद के लिए, निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 20 मार्च, 2018

प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित करता है।

एतद् द्वारा उक्त अधिसूचना के क्रमांक 02 के कॉलम 5 को निम्न रूप से संशोधित कर पढ़ा जाय :-

क्र० सं०	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	पद का नाम	पूर्व में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट निर्वाची पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट निर्वाची पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	पलामू	मेदिनीनगर नगर निगम	वार्ड पार्षद (वार्ड सं०-10 से 18 तक)	श्री सतीश कुमार, नजारत उप-समाहर्ता, पलामू	श्री उज्जवल कुमार सोरेन, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पण्डवा

2. अधिसूचना संख्या 302 दिनांक-06 मार्च 2018 के शेष सभी अंश यथावत् रहेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

झारखण्ड, राँची।
